



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2007/कार्तिक 4, 1929

No. 326]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2007/KARTIKA 4, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2007

सं. 76(आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/89/180/विविध-65/ए एम 05/पीसी- I/(ए)/ पाट. —विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशक, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

1. संशोधन के बाद पैरा 2.32.2 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :

2.32.2 निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र.सं.	एगिजम कोड	मद ब्यौरा
1.	72041000	कास्ट आयरन का छीजन और स्क्रेप
2.	72042190	अन्य
3.	72042920	हाई स्पीड स्टील का
4.	72042990	अन्य
5.	72043000	टिन वाले लोहे या स्टील का छीजने और स्क्रेप
6.	72044100	टर्निंग, शेविंग, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फिलिंग, ट्रिमिंग और स्टैपिंग, चाहे गठ्ठर में हो या नहीं
7.	72044900	अन्य
8.	72045000	दोबारा पिघलने वाले स्क्रेप इनगोट्स
9.	74040010	कॉपर स्क्रेप
10.	74040022	ब्रास स्क्रेप
11.	75030010	निकल स्क्रेप
12.	76020010	एल्यूमिनियम स्क्रेप
13.	79020010	जिंक स्क्रेप
14.	80020010	टिन स्क्रेप
15.	81042010	मैगनीशियम स्क्रेप

खंडित रूप: उपर्युक्त पैरा 2.32.2 में सूची बद्ध धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात भारत के सभी पत्तनों से अनुमत किया जाएगा। होदाईडेह, यमन और बंदार अधास, ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा।

अखंडित, संपीडित और खुला रूप: उपर्युक्त 2.32.2 में सूचीबद्ध धात्विक छीजन, स्क्रेप जोकि अखंडित, संपीडित और खुले रूप में हो, का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

क. आयातक माल की निकासी के समय सीमाशुल्क को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(I) परिशिष्ट-5 के अनुलग्नक-I के प्रपत्र के अनुसार परिशिष्ट-5 में उल्लिखित जांच और प्रमाणन एजेंसियों में से किसी एक से निम्न आशय का पोत लदान-पूर्व जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि :

(i) खेप में प्रयुक्त अथवा अन्यथा किसी भी रूप में हथियार गोलाबारूद, सुरंगों, गोलों, गोलियों, रेडियो धर्मिता वाले या कोई अन्य किस्म का विस्फोटक माल शामिल नहीं है।

(ii) आयातित मद (मर्दे) वास्तव में इस प्रकार के वर्गीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार धात्विक वेस्ट/स्क्रेप/सैकड्स/खराब माल हैं।

(II) आयातक और निर्यातक के बीच करार की प्रति जिसमें बताया गया हो कि खेप में प्रयुक्त अथवा अन्यथा किसी भी रूप में हथियार, गोलाबारूद, सुरंगों, गोलों, गोलियों, रेडियो धर्मिता वाले या कोई अन्य किस्म का विस्फोटक माल शामिल नहीं है।

ख. स्क्रेप का आयात केवल निम्नलिखित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और ईओयू तथा आई जैड के मामले में अनुमत हेतु अपवाद नहीं होगा :

“1. चैन्नै, 2. कोचीन, 3. इन्नोर, 4. जे.एन.पी.टी., 5. काण्डला, 6. मोर्मूगुआ, 7. मुम्बई, 8. न्यू मैंगलोर, 9. परादीप, 10. तूतीकोरिन, 11. विशाखापट्टनम, 12. आईसीडी तुगलकाबाद, 13. पिपावा, 14. मुन्ना, 15. कोलकाता, 16. आईसीडी लुधियाना, 17. आईसीडी दादरी, ग्रेटर नोएडा, 18. आईसीडी नागपुर, 19. आईसीडी जोधपुर, 20. आईसीडी जयपुर और 21. आईसीडी उदयपुर, 22. सी एफ एस मुलुंड, 23. आई सी डी कानपुर, 24. आई सी डी अहमदाबाद, 25. आई सी डी पीतम्पुर और 26. आई सी डी मलानपुर।”

2. पैरा 2.32.2क को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I में उपयुक्त स्थल पर जोड़ा जाएगा :-

“2.32.2क : यदि कोई एजेंसी परिशिष्ट-5 के तहत सूचीबद्ध होना चाहती है तो, वह विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकती है :-

(क) एजेंसी की गतिविधियों, इसके इतिहास, सदस्यता, संगठनात्मक ढांचे, मानवशक्ति आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

(ख) धात्विक स्क्रेप की जांच करने हेतु आधाभूत ढांचा, लोजिस्टिक्स, जांच लैबोरेटरी आदि।

(ग) उन कम्पनियों/एजेंसियों की सूची जिनके लिए जांच कार्य किया गया हो”।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 26th October, 2007

No. 76(RE: 2007)/2004—2009

F. No. 01/89/180/Misc-65/AM 05/PC-I(A)/Pt.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures, Vol. 1:

1. After amendment, Paragraph 2.32.2 shall be read as under:—

“2.32.2 Import of following types of metallie waste and scrap will be free subject to conditions detailed below:

Sl. No.	Exim code	Item description
1.	72041000	waste and scrap of cast iron
2.	72042190	Other
3.	72042920	Of High speed steel

Sl. No.	Exim code	Item description
4.	72042990	Other
5.	72043000	Waste and scrap of tinned iron or steel
6.	72044100	Turnings, shavings, chips, milling waste, saw dust, fillings, trimmings and stampings, whether or not in bundles
7.	72044900	Other
8.	72045000	Remelting scrap ingots
9.	74040010	Copper scrap
10.	74040022	Brass scrap
II.	75030010	Nickel scrap
12.	76020010	Aluminum scrap
13.	79020010	Zinc scrap
14.	80020010	Tin scrap
15.	81042010	Magnesium scrap

Shredded Form: Import of metallic waste and scrap listed above in shredded form shall be permitted through all ports of India. Import from Hodaideh, Yemen and Bandar Abbas, Iran will be in shredded form only.

Unshredded, compressed and loose Form: Import of metallic waste, scrap listed above in unshredded compressed and loose form shall be subject to following conditions:—

A. Importer shall furnish the following documents to the customs at the time of clearance of goods.

(I) Pre-shipment inspection certificate as per the format in Annexure I to Appendix 5 from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-5 to the effect that:

- (i) The consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radio active contaminated or any other explosive material in any form either used or otherwise.
- (ii) The imported item (s) is actually a metallic waste/scrap/ seconds/ defective as per the internationally accepted parameters for such a classification.

(II) Copy of the contract between the importer and the exporter stipulating that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radio active contaminated, or any other explosive material in any form either used or otherwise.

B. Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs :

“1. Chennai, 2. Cochin, 3. Ennore, 4. JNPT, 5. Kandla, 6. Mormugao, 7. Mumbai, 8. New Mangalore, 9. Paradip, 10. Tuticorin, 11. Vishakhapatnam, 12. ICD Loni, Ghaziabad, 13. Pipava, 14. Mundra, 15. Kolkata, 16. ICD Ludhiana, 17. ICD Dadri (Greater Noida), 18. ICD Nagpur, 19. ICD Jodhpur, 20. ICD Jaipur, 21. ICD Udaipur, 22. CFS Mulund, 23. ICD Kanpur, 24. ICD Ahmedabad, 25. ICD Pitampur and 26. ICD Malanpur.”

2. Paragraph 2.32.2A shall be inserted at the appropriate place in the Hand Book of Procedures Vol. I :

“2.32.2. A : In case any agency wishes to be enlisted under Appendix 5, they may furnish an application to the office of Director General of Foreign Trade with the following documents:—

- (a) A brief on the activities of the agency, its history, membership, organizational stricture, manpower, etc.
- (b) Infrastructural setup, logistics, testing labs etc. for carrying out the inspection of metallic scrap.
- (c) List of companies/agencies for which testing has been carried out.”

This issues in Public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
and Ex-Officio Addl. Secy.